

## जनपद बाराबंकी

दिनांक -11.03.2023

जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस द्वारा दिनांक 10/11.03.2023 को 03 वारण्टी व अन्य कुल 10 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 74 अभियुक्तों के विरुद्ध शांतिभंग की धाराओं में कार्यवाही की गयी।

01. ➔ थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 157 ग्राम अवैध मारफीन बरामद-

थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त फारूख उर्फ गुड्डू पुत्र सरदार निवासी करौंटी कला थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 11.03.2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 157 ग्राम अवैध मारफीन बरामद कर थाना सफदरगंज पर मु0अ0सं0 108/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

### अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 102/12 धारा 8/21 NDPS ACT थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 284/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 638/09 धारा 9ए/25ए NDPS ACT थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0सं0 425/19 धारा 8/21 NDPS ACT थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
5. मु0अ0सं0 303/19 धारा 323/504/506/325 भदवि व 3(1)द,ध SC/ST ACT थाना सतरिख बाराबंकी

02. ➔ थाना देवा पुलिस ने 08 जुआरियों को किया गिरफ्तार-

थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेल रहे 08 अभियुक्तगण 1. कौशल कुमार पुत्र स्व0 वंशीलाल 2. सूर्यश रावत पुत्र दिनेश रावत निवासीगण इनायतपुर खिजिरपुर थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी 3. रिजवान पुत्र मो0 यासीन 4. रमाकान्त पुत्र फूलचन्द 5. शाहवान पुत्र अली अहमद 6. जितेन्द्र पुत्र हरिप्रसाद 7. अमन सोनी पुत्र स्व0 शिवकुमार 8. शोएब पुत्र हनीफ निवासीगण मलूकपुर थाना देवा जनपद बाराबंकी को दिनांक 10/11.03.2023 को ताश की दो गड्डी व 22,790/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना देवा पर मु0अ0सं0 180 व 182/2023 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

03. ➔ थाना दरियाबाद पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद-

थाना दरियाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त श्रवण पुत्र रघुनन्दन निवासी फुटहागंज थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को दिनांक 10.03.2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 66/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

04. ➔ जनपद में आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस-

आज दिनांक 11.03.2023 को जनपद में समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जनपद के समस्त थानों में कुल 83 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर मौके पर 48 शिकायतों का निस्तारण कराया गया।